

सत्रीय कार्य पुस्तिका

विज्ञान में स्नातक उपाधि कार्यक्रम (बी.एस.सी.जी.)

शैलविज्ञान

1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक वैध

सत्रांत परीक्षा के लिए फार्म भरने से पहले सत्रीय कार्य
जमा करना अनिवार्य है।



विज्ञान विद्यापीठ
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
मैदान गढ़ी, नई दिल्ली-110 068

(2023)

प्रिय विद्यार्थी,

कृपया सत्रीय कार्य से संबंधित अनुभाग स्नातक उपाधि कार्यक्रम की कार्यक्रम दर्शिका में पढ़े, जो हमने नामांकन के बाद आपको भेजा है। उसमें सत्रीय कार्य से संबंधित जो भाग है, उसे कृपया पढ़ लें। जैसा कि आप जानते हैं सतत मूल्यांकन के लिए 30 प्रतिशत अंक निर्धारित किये गये हैं। इसके लिए आपको इस पाठ्यक्रम का एक सत्रीय कार्य हल करना होगा। यह सत्रीय कार्य इस पुस्तिका में शामिल है और इसमें दो भाग हैं, **Part A** और **Part B**। दोनों भागों के कुल अंक 100 हैं, जिनमें से उत्तीर्ण करने के लिए आपको 35 प्रतिशत अंक की आवश्यकता है।

सत्रीय कार्य से संबंधित निर्देश

इससे पहले कि आप किसी प्रश्न का उत्तर लिखें, निम्नलिखित निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

1. अपनी उत्तर पुस्तिका के पहले पृष्ठ पर सबसे ऊपर निम्नलिखित प्रारूप के आधार पर विवरण लिखें।

नामांकन संख्या :

नाम :

पता :

पाठ्यक्रम संख्या :

पाठ्यक्रम शीर्षक :

सत्रीय कार्य संख्या :

अध्ययन केंद्र :

दिनांक :

कार्य के सही और शीघ्र मूल्यांकन के लिए दिये गये प्रारूप का सही अनुसरण करें।

2. अपना उत्तर लिखने के लिए फुलस्कैप कागज का इस्तेमाल करें, जो ज्यादा पतला न हो।
3. प्रत्येक कागज पर बांयें, ऊपर और नीचे 4 से. मी. की जगह छोड़ें।
4. आपके उत्तर स्पष्ट, सटीक और अपने शब्दों में होने चाहिए।
5. इस सत्रीय कार्य के Part A और Part B को हल करें, और **Part A** और **Part B** सहित संपूर्ण सत्रीय कार्य को वैध तिथि के भीतर अपने अध्ययन केंद्र में जमा करें। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त उत्तर पुस्तिकाओं को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
6. सत्रीय कार्य उत्तर पुस्तिका नियत तिथि के भीतर आपने अध्ययन केंद्र पर जमा करें। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त हमारा सुझाव है कि आप अपने सत्रीय कार्य की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें।
7. यह सत्रीय कार्य 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक वैध है।
8. यदि आप इस सत्रीय कार्य को जमा नहीं करेंगे तो आप इस पाठ्यक्रम का सत्रांत परीक्षा फार्म जमा नहीं कर सकेंगे।
9. किसी भी पूछताछ के लिए आप कृपया संपर्क करें : kakoligogoi@ignou.ac.in,
meenal mishra@ignou.ac.in।

हमारी शुभकामानाएं आपके साथ हैं।

सत्रीय कार्य शैलविज्ञान

पाठ्यक्रम कोड : **BGYCT-135**
सत्रीय कार्य कोड : **BGYCT-135/TMA/2023**

कुल अंक : 100

नोट : * सभी प्रश्न हल करें। प्रत्येक प्रश्न के आगे उसके अंक दर्शाए गए हैं। सभी उत्तर अपने शब्दों में
लिखें; पाठ्यक्रम सामग्री से कॉपी न करें।

* 5 अंक वाले प्रश्नों के उत्तर लगभग 250 शब्दों में और 10 अंकों के प्रश्नों के उत्तर 500 शब्दों
से अधिक न लिखें।

Part A

1. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखें :
 - a) शैल चक्र (5)
 - b) CIPW वर्गीकरण (5)
2. आग्नेय शैलों में पाये जाने वाले विभिन्न प्रकार के संरचनाओं को स्पष्ट रेखांकित आरेखों (10)
की सहायता से समझाइए।
3. मैग्मा के रासायनिक और खनिज संघटनों की विस्तार से व्याख्या कीजिए। (10)
4. स्पष्ट आरेखों की सहायता से ग्रेनोडायोराइट के स्थूल तथा सूक्ष्मदर्शीय लक्षणों की (10)
विवेचना कीजिए।
5. बॉवेन की अभिक्रिया शृंखला को व्याख्या करें। (10)

Part B

6. अवसादों की उत्पत्ति में शामिल प्रक्रियाओं की व्याख्या कीजिए। (10)
7. कणों के संकुलन का शैलों की सरन्ध्रता व पारगम्यता पर प्रभाव की विवेचना कीजिए। (10)
8. कायातंरण को प्रभावित करने वाले घटकों को व्याख्या करें। (10)
9. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखें :
 - a) कण साइज़ मापदंड (5)
 - b) क्रमिक संस्तरण (5)
 - c) मूलावशेषी गठन (5)
 - d) शल्कन एवं संरेखण (5)